

प्रार्थना निवेदन

बाइबल अनुवाद कार्य

- » मरकुस और प्रेरितों के काम का प्रकाशन शीघ्र किया जा सके।
- » मेवाड़ी भाषा में एक और अनुवादक मिल सके।

कलीसिया आधारित साक्षरता कार्य

- » वागड़ी क्षेत्र के पाँच गाँवों में वी. बी. एस. की कक्षाएँ अच्छी रीति से चलाई जा सके।
- » वागड़ी भाषा में वयस्क निरक्षर विश्वासियों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार हो सके।
- » मेवाड़ी भाषा में कलीसिया के द्वारा साक्षरता कार्य के लिए एक समर्पित व्यक्ति मिल सके।

गीत रचना कार्य

- » मेवाड़ी भाषा सुसमाचार वीडियो सी. डी. अच्छे से बाँटी जा सके और इसके द्वारा इस समुदाय के लोग सच्चाई को जान सकें।
- » वागड़ी गीतों की ऑडियो सी. डी. का इस्तेमाल वहाँ के सब लोग कर सकें और यह समूह और भी नये गीतों को बनाने के लिए उत्साहित हो जाए।

कहानी सीखो- कहानी सुनाओ कार्य

- » मेवाड़ी और वागड़ी भाषा में कहानियाँ बनाने के लिए एक स्थानीय समूह तैयार हो सके।

क्रिसमस पर्व मसीही समुदायों में आनन्द का पर्व माना जाता है। इस पर्व में हम यह याद करते हैं कि परमेश्वर ने मानव रूप में इस धरती पर जन्म लिया। यह आकस्मात् नहीं हुआ, लेकिन जन्म से पहले अलग-अलग नबियों ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की थी। आज मनुष्य अपने पापों, बिमारियों और शैतान के दबावों से घिरा हुआ है। बाइबल में लिखा है, "देखो तुम्हारे लिये एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है और यही मसीह प्रभु है।" हमारी यह प्रार्थना है कि मेवाड़ और वागड़ के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करे और अपनी बिमारी से चंगे हो सके, दुष्टात्माओं से छुटकारा पा सके एवं अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके स्वर्ग राज्य जा सके। इस प्रार्थना में आप भी शामिल हो जायें। प्रभु आप सबको आशीष दे!

आप सबको बड़ा दिन एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ



+91 9772045544, +91 9829734585, +91 7568871021
mewari@rajasthaninitiative.org, wagri@rajasthaninitiative.org
mewadmasihmandali@gmail.com, www.mewar.co.in

परमेश्वर मेवाड़ से इतना प्रेम करता है कि...



यीशु मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की!

मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में परमेश्वर अपने कार्य को और भी बढा रहा है, इसके लिये परमेश्वर का धन्यवाद हो। साथ ही साथ हम आपके भी आभारी है क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए बहुत प्रार्थना की है। इस समय हम मेवाड़ी भाषा में बाइबल के अनुवाद का कार्य कर रहे हैं और वागड़ी और मेवाड़ी भाषा में कहानियों, गानों और कलीसिया-आधारित शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर पिता की सेवा में कार्यरत हैं। आपकी सहायता के लिए हम आभारी हैं। प्रभु हमें बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है और इन सबका एक बड़ा कारण आपकी प्रार्थनाएँ हैं। सेवा क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति के विषय में हम आपको अवगत करवाना चाहेंगे, जिस से आप और हम साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुती कर सकें और आप हमारे लिए प्रभावी रूप से प्रार्थना कर सकें।

मेवाड़ी व वागड़ी समाचार पत्रिका, 2014

बाइबल अनुवाद कार्य



- » पुराना नियम में उत्पत्ति व भजन संहिता का प्रारम्भिक अनुवाद हो चुका है।
- » नया नियम में सोलह किताबों का प्रारम्भिक अनुवाद हो चुका है।
- » मरकुस और प्रेरितों के काम की अंतिम जाँच हो चुकी है और अब प्रकाशित होने के लिए तैयार है।

कलीसिया आधारित साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.बी.एल.)



- » वागड़ी में प्राथमिक स्तर की वर्णमाला तैयार की गई है।
- » वागड़ी भाषा क्षेत्र में वी. वी. एस. चलाने के लिए पाठ्य सामग्री तैयार की गई है।
- » दो मसीह सम्मेलनों में बच्चों को बाइबल आधारित शिक्षा दी गई।

विकास के प्रति एक मुख्य रुकावट के रूप में निरंतर अशिक्षा को देखा जा सकता है। गहराई के साथ व संख्या में कलीसिया विकास के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मज़बूत विश्वासी हों जो कि वचन की आज्ञा मानने वाले हों और अन्य लोगों को सिखाने वाले हों। जब किसी मसीही समुदाय में अशिक्षित विश्वासी होते हैं तो इसके विकास के प्रति यह एक ऐसी रुकावट है जो कि सदैव बनी रहती है।

यहाँ तक कि अनेक सालों तक मसीह के अनुयायी होने के बाद भी अशिक्षित विश्वासियों के पास बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं, जिससे कि वे अपने विश्वास में बढ़ सकें, क्योंकि वे खुद के लिए बाइबल को न तो पढ़ सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। ज़्यादातर उनका विश्वास उस वचन से ही विकसित हो पाता है, जिसे वे प्रचार में सुनते हैं। उस में से भी जितना वचन वे समझ पाते हैं उसमें अंतर देखा जा सकता है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रचार के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

अनुवाद प्रक्रिया के साथ-साथ साक्षरता कार्यक्रम चलाने से ग्रामीण इलाकों के निरक्षर लोगों में उन्हें साक्षर बनाकर उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी यह इच्छा है कि जब समुदायों में हम सेवा करते हैं तो वहाँ पर मज़बूत विश्वासी देखे जा सकें। इसी कारण हम प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं।

इस स्थिति पर अधिक रौशनी डालने के लिए निम्नलिखित घटना को देखा जा सकता है जिसे राजस्थान में हमारे एक सहकर्मी ने इस तरह बताया। हमारे अनुवाद समूह से एक जन एक गाँव में एक विश्वासी से मिलने गया जो कि उसका रिश्तेदार था। वहाँ दीवार पर एक मसीही कलेण्डर टँगा था, जिसमें बच्चों से घिरे हुए यीशु का चित्र बना हुआ था।

उसके नीचे एक आयत मत्ती 19:14 से इस तरह लिखी हुई थी, “बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो।” वह व्यक्ति जो कि एक अशिक्षित विश्वासी था, खुश होकर बोला, “देखो, कितनी अच्छी तरह से यीशु अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। यह सही है क्या यीशु के 7 बच्चे थे?” जब अनुवादक ने यह घटना सहायक सहकर्मी के साथ बाँटी तो वह अपनी हँसी नहीं रोक पा रही थी। उस सहायक सहकर्मी ने इस घटना से स्वयं के लिए कलीसिया आधारित साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा सेवा के प्रति अपनी स्पष्ट बुलाहट को पहचाना कि वह अपने समूह के साथ उस भाषा विशेष में काम करने के लिए अपनी साक्षरता योजनाओं को लेकर वहाँ जाए। इस समय उस सहायक ने अपने समूह के साथ वहाँ की मातृ-भाषा में कलीसिया आधारित साक्षरता कार्यक्रम पर योजना तैयार की है जिससे कि नए व पुराने असाक्षर विश्वासी खुद के लिए बाइबल को पढ़ सकें और इस तरह से परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन में मज़बूत बनते चले जाएँ।

गीत रचना



- » मेवाड़ी-वागड़ी गीत किताब को और नये गीतों के साथ पुनः प्रकाशित किया गया है।
- » मेवाड़ी में दस गीत अनुवाद किये गये हैं।

एक बार संगीत-रचना विभाग समूह वागड़ी क्षेत्र के एक गाँव में गया। वहाँ पर कार्यशाला आयोजन के बाद वहाँ के स्थानीय पास्वान् ने इस प्रकार अपने दिल की बात व्यक्त की “अगर इस कार्यशाला का आयोजन नहीं होता तो हम प्रभू यीशु के लिए खुद गीत तैयार नहीं कर पाते और हम जीते जी ऐसे ही मर जाते। संगीत-रचना की इस कार्यशाला ने हमारी सहायता की है जिससे कि हम गीत तैयार कर सकें व परमेश्वर की महिमा कर सकें।”

कहानी सुनाओ और कहानी सीखो



- » नये नियम से वागड़ी भाषा में 13 कहानियाँ बनाई गई हैं।
- » पुराने और नये नियम से मेवाड़ी भाषा में 12 कहानियाँ बनाई गई हैं।

अन्य कार्य

- » मेवाड़ी व वागड़ी भाषा में कलेण्डर और पोस्टर तैयार किये गये।
- » मेवाड़ी में बड़े दिन के लिये एक विडियो बनाया गया है।

